

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 17—जून 23, 2017 (ज्येष्ठ 27, 1939)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 17—JUNE 23, 2017 (JYAISTHA 27, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 मार्च 2017

सं. पी.तीन-1/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति देने संबंधी नोटिस दिनांक 25.05.2016 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री वी.एस. रावत, सहायक कमाण्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-7780), 121 बटालियन, के.रि.पु.बल ने दिनांक 30.09.2016 (अपराह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 30.09.2016 (अपराह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

गुरशक्ति सिंह सोढी
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

सं. पी.तीन-2/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 04.02.2016 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री सोमी, सहायक कमाण्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-9412), 222 वीं वाहिनी, के.रि.पु.बल ने दिनांक 30.09.2016 (अप.) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 30.09.2016 (अप.) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

गुरशक्ति सिंह सोढी
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

सं. पी.तीन-2/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 22.09.2016 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री बिन्दु एम.सी, सहायक कमाण्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-9926), 88 वीं वाहिनी, के.रि.पु.बल ने दिनांक 30.11.2016 (अप.) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 30.11.2016 (अप.) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

गुरशक्ति सिंह सोढी
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

सं. पी.तीन-1/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति देने संबंधी नोटिस दिनांक 21.04.2016 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री कंचन रे, सहायक कमाण्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-7814), ग्रुप केन्द्र रंगारैड्डी, के.रि.पु.बल ने दिनांक 20.07.2016 (अपराह) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 20.07.2016 (अपराह) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

गुरशक्ति सिंह सोढी
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

दिनांक 28 अप्रैल 2017

सं. ओ.दो-3703/2017-कार्मिक-डी.ए.-1—भारत सरकार ने श्री राजीव राय भटनागर, भा.पु.से. (यू.पी. : 83) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपेक्स स्केल रु. 2,25,000/- लेवल 17 वेतन मैट्रिक्स में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिवर्षिता की तिथि दिनांक 31.12.2019 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने दिनांक 28.04.2017 पूर्वाह्न में महानिदेशक, के.रि.पु.बल का पदभार ग्रहण कर लिया है।

गुरशक्ति सिंह सोढी
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 मई 2017

सं. डी.पॉच-1/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक शून्य स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री सयैद नदीम राजा, सहायक कमाण्डेन्ट (प्रशिक्षु) (आई.आर.एल.ए.-10074), 45वीं बैच डेगो, के.रि.पु.बल ने दिनांक 27.08.2016 (अपराह) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 27.08.2016 (अपराह) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

सं. डी.पॉच-1/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 16.08.2016 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री वरुण कुमार, सहायक कमाण्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-8147), 91 बटालियन, के.रि.पु. बल ने दिनांक 20.08.2016 (अपराह) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 20.08.2016 (अपराह) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

सं. डी.पॉच-1/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 04.02.2016 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री महीप सिंह यादव, सहायक कमाण्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-9508), 142 बटालियन, के.रि.पु. बल ने दिनांक 06.08.2016 (अपराह) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 06.08.2016 (अपराह) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

सं. डी.पाँच-1/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 08.10.2016 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री रंजीत कुमार, सहायक कमाण्डेन्ट (प्रशिक्षु) (आई.आर.एल.ए.-10652), डी.ए.जी.ओ-48 बैच, के.रि.पु. बल ने दिनांक 11.01.2017 (अप.) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 11.01.2017 (अप.) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

सं. डी.पाँच-1/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 09.06.2016 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री कौस्तुभ, सहायक कमाण्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-10219), 179 वीं वाहिनी के.रि.पु. बल ने दिनांक 20.10.2016 (अप.) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 20.10.2016 (अप.) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

सं. डी.पाँच-1/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 15.08.2016 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री आशिष थपलियाल, सहायक कमाण्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-10018), 179 वीं वाहिनी के.रि.पु. बल ने दिनांक 03.11.2016 (अप.) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 03.11.2016 (अप.) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

सं. डी.पाँच-1/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 17.08.2016 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री विषणु सुरेश सी, सहायक कमाण्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-10306), 207 बटालियन के.रि.पु. बल ने दिनांक 07.11.2016 (अप.) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 07.11.2016 (अप.) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

सं. डी.पाँच-1/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 08.10.2016 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री अनुराग सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट (प्रशिक्षु) (आई.आर.एल.ए.-10704), डी.ए.जी.ओ-47 बैच, के.रि.पु. बल ने दिनांक 03.03.2017 (अप.) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 03.03.2017 (अप.) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

सं. डी.पाँच-1/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र वापस लेने संबंधी अनुरोध के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा, सहायक कमाण्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-8103), ने दिनांक 10.06.2016 (पूर्वाह्न) को 199 बटालियन के.रि.पु. बल में रिपोर्ट किया तथा अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया। तदनुसार, उन्हें उसी तिथि अर्थात् दिनांक 10.10.2016 (पूर्वाह्न) से इस बल की नफरी में शामिल किया जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

सं. पी.तीन-1/2017-कार्मिक-(स.क.)—सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति देने संबंधी नोटिस दिनांक 24.02.2016 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री मंजित पठानिया, सहायक कमाण्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-6406), 161 वीं वाहिनी, के.रि.पु. बल ने दिनांक 20.09.2016 (अप.) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 20.09.2016 (अप.) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

दिनांक 31 मई 2017

सं. ओ.दो. 4021/2015—कार्मिक डीए-6—सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. विश्वास शर्मा, चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेंट), ईरला संख्या-10710, गुप केन्द्र, के.रि.पु. बल, पिंजौर द्वारा दिनांक 24.05.2017 (अपराह्न) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, इनका नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् 24.05.2017 (अपराह्न) से हटाया जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 मई 2017

सं. ई-16013/उ.म.नि.-प्रति/एनवी/2011/कार्मिक-2/393—राष्ट्रपति, श्री एन. वेनुगोपाल, भा.पु.से. (एचपी : 95) को महानिरीक्षक पद में पदोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 16.05.2017 (अपराह्न) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 में नियुक्त करते हैं। अधिकारी द्वारा पदोन्नति पर दिनांक 16.05.2017 (अपराह्न) को महानिरीक्षक (उत्तरी सेक्टर), के.ओ.सुब, साकेत, नई दिल्ली का पदभार ग्रहण कर लिया गया है।

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 मई 2017

सं. ई-16013/उ.म.नि.-प्रति.-शि.गो./कार्मिक-2/2010/390—गृह मंत्रालय के ज्ञा. सं. आई-21016/20/2011-भा.पु.से. III दिनांक 24.04.2017 के अनुसरण में प्रतिनियुक्ति से मूल संवर्ग में समय-पूर्व प्रत्यावर्तन होने पर, श्रीमती शिखा गोयल, भा.पु.से. (टीजी:1994) ने दिनांक 16.05.2017 (अपराह्न) को महानिरीक्षक, के.ओ.सुब उत्तरी खण्ड मुख्यालय, साकेत, नई दिल्ली का पदभार छोड़ दिया।

वी के चौरसिया
सहायक महानिरीक्षक/कार्मिक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 4 मई 2017

सं. प्रशा. I/का.आ.सं.-48—महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली निम्नलिखित कर्मचारियों को वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-8 (₹ 47600-151100/-), छठे वेतन आयोग के वेतन बैंड-2, (₹ 9300-34800/-) जिसमें ₹ 4800 का ग्रेड वेतन देय है, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :—

क्र.सं.	नाम	कर्मचारी कोड संख्या	पदोन्नति तिथि
1.	श्री प्रदीप कुमार	DLNDV4052051	17.02.2017
2.	श्री प्रदीप कुमार	DLNDV4051906	22.02.2017
3.	श्री दुर्गेश कुमार चतुर्वेदी	DLNDV4051919	06.03.2017

ह./— अपठनीय
उप-निदेशक (प्रशासन)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 1 जून 2017

सं. 5/1/2017-सी.पी.आई.—अप्रैल, 2017 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 2 अंक बढ़कर 277 (दो सौ सतहत्तर) अंकों के स्तर पर स्थिर रहा।

श्याम सिंह नेगी
उप महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-400085, दिनांक 16 मई 2017

सं. पीडी/7(4)/2017/भर्ती-IV/(एसओ/डी)/ईटीजी/5892—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के 'स्तर 10' भाग-क के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजिनियरों ग्रेड 'सी' को इसी अनुसंधान केंद्र में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स 'स्तर-11' भाग-क में वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजिनियरों ग्रेड 'डी' के रूप में आगामी आदेशों कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री मनीष पाठक	01/07/2016
2	श्री राम प्रकाश	01/07/2016
3	श्री मंगला नन्द	01/07/2016
4	श्री परेश कोठारी	01/07/2016
5	श्री महेश विश्वभरन	01/07/2016
6	श्री विनायक रमेश सोनार	01/07/2016
7	कुमारी एलिना मिश्रा	01/07/2016
8	श्री विक्रम कुमार	01/07/2016
9	श्री सायनदीप कुण्डु	01/07/2016
10	श्री उपेन्द्र सिंह	01/07/2016
11	श्री अंकुर कटियार	01/07/2016
12	श्री मनीष कुमार मुँधड़ा	01/07/2016
13	श्री अंकुर चौधुरी	01/07/2016
14	श्री हितेश चौधरी	01/07/2016
15	श्री सरवर अहमद राथर	01/07/2016
16	कुमारी पूजा गुप्ता	01/07/2016
17	श्रीमती अर्चना शेखर अरुन	01/07/2016
18	श्री वेंकटेश्वर राव गुम्मा	01/07/2016
19	श्री कनकम वेंकन्ना बाबू	01/07/2016
20	श्री अभिलाष चक्रवर्ती	01/07/2016
21	श्री अनिल कुमार वर्मा	01/07/2016
22	श्री अजित स्वामिनाथन	01/07/2016
23	श्री बिम्मी भारद्वाज	01/07/2016
24	श्री राहुल जैन	01/07/2016
25	कुमारी अनुश्री जैन	01/07/2016
26	श्री मनोज दत्तात्रय म्हेतर	01/07/2016
27	श्री ललित पाटोदा	01/07/2016
28	श्री सुमन्ता मुखर्जी	01/07/2016
29	श्री विजय कार्की	01/07/2016
30	श्री अजितलाल आर टी	01/07/2016
31	श्री श्रीनाथ राघवन	01/07/2016

(1)	(2)	(3)
32	श्री प्रशांत कुमार मिश्र	01/07/2016
33	कुमारी सरिता	01/07/2016
34	श्री दूडम श्रीनिवास	07/07/2016
35	श्री अयन कुमार पाल	01/07/2016
36	श्री राहुल सिंह	01/07/2016
37	श्रीमती जयसुदा प्रभु	01/07/2016
38	श्री आलोक रामनिवास त्रिपाठी	01/07/2016
39	श्रीमती कौशिकी घोष जाना	01/07/2016
40	कुमारी पल्लवी सिंघल	01/07/2016
41	श्रीमती अनीता मनु	01/07/2016
42	श्री मेन्टेस जोस	01/07/2016
43	श्री पापु सामन्त	01/07/2016
44	श्रीमती ज्योत्स्ना भट्ट	01/07/2016
45	श्री गोपेश श्रीवास्तव	01/07/2016
46	श्री जॉर्ज ऑटोनी	01/07/2016
47	श्रीमती सुब्बैया प्रेमलता	01/07/2016
48	श्री परिचय चक्रवर्ती	01/07/2016
49	श्री टी. रायप्पन	01/07/2016
50	श्री प्रदीप लालमोहन सिंह	01/07/2016
51	श्री संग्राम सिंह भाटी	01/07/2016
52	श्री बोगादी रमेश	01/07/2016
53	श्री अंशुमान सिंहराय	01/07/2016
54	श्री रबीन्द्र नाथ जुंड	01/07/2016
55	श्री कुमार सजल	01/07/2016
56	श्री वरा प्रसाद बत्तुला	01/07/2016
57	श्री देवानंद शालिग्राम सिनकर	01/07/2016
58	डॉ (श्रीमती) अरुणा अमित खत्री	01/07/2016
59	श्री चन्द्रजीत सिंह चौहान	01/07/2016
60	श्री प्रथमेश विजय ठकार	01/07/2016
61	श्री सायन गूहा ठाकूरता	01/07/2016
62	श्रीमती गुंपेनी रमादेवी	01/07/2016
63	श्री पण्डुगुला तिरमलेश्वर राव	04/07/2016
64	श्री अविनाश गोपालन्	01/07/2016
65	श्री नौडूरु साई कार्तीक	01/07/2016
66	श्री प्रफुल्ल कुमार सिन्हा	01/07/2016
67	श्री सतीश चन्द्र मिश्र	01/07/2016
68	श्री गौरव सिंह	01/07/2016
69	श्रीमती रश्मि राय	01/07/2016

(1)	(2)	(3)
70	श्री काउसार अली	01/07/2016
71	श्री गौतम विश्वकर्मा	01/07/2016
72	श्री अभिमन्यु सरकार	01/07/2016
73	श्री नन्द किशोर मिश्र	01/07/2016
74	श्री संदीप जोशी	01/07/2016
75	श्री मोहित कुमार शर्मा	01/07/2016
76	श्री बृजेश नारायण मिश्र	01/07/2016
77	श्री अश्विनी कुमार	01/07/2016
78	श्री ज्योति शर्मा	01/07/2016
79	श्री सुखदीप सिंह	01/07/2016
80	श्री प्रिठ्वीश सिन्हाराय	01/07/2016
81	श्री राकेश कुमार पाल	01/07/2016
82	श्री आशुतोष श्रीवास्तव	01/07/2016
83	श्री देबोज्योति पाल	01/07/2016
84	कुमारी कविता प्रेमकुमार	01/07/2016
85	श्री राहुल आर्य	01/07/2016
86	श्री गणेश लाल कुमावत	01/07/2016
87	श्री कृष्ण केशव पंडा	01/07/2016
88	श्री रमेश दिनकर राव	01/07/2016
89	श्री प्रशान्त कुमार सिंह	01/07/2016
90	श्रीमती राजश्री दिक्षित	04/07/2016
91	श्री आलोक कुमार पासा	01/07/2016
92	श्री रामलखन	01/07/2016
93	श्री पटेल मंथन	01/07/2016
94	श्री शतादु मौलिक	01/07/2016
95	श्री मनी कुमार	01/07/2016
96	श्री अंकुश राँय	01/07/2016
97	श्री पाराशर हेमन्त	01/07/2016
98	श्रीमती रीना शर्मा	01/07/2016
99	श्रीमती रमा प्रजित	01/07/2016
100	श्री अमिताभ नन्दी	01/07/2016
101	श्री अभिषेक दास	01/07/2016
102	श्री आर कृष्ण कुमार	01/07/2016
103	श्री गोविन्द एस राजन	01/07/2016
104	श्री गोपाल मापदार	01/07/2016
105	श्री गौरव वर्मा	01/07/2016
106	श्री प्रवीण कुमार	01/07/2016
107	श्री नागेंदर थोडेही	01/07/2016

(1)	(2)	(3)
108	श्री केशव मोहता	01/07/2016
109	श्री शुभम् मिश्रा	01/07/2016
110	श्री अरूप सिंह राय	01/07/2016
111	श्री मेघनाथ सेन	01/07/2016
112	श्री अतनू झा	01/07/2016
113	श्री शशि रंजन कुमार	05/07/2016
114	श्री योगेन्द्र सिंह	01/07/2016
115	श्री बाबु रामचंद्र गोंडे	01/07/2016
116	श्री बलवंत सिंह	01/07/2016
117	श्री कोठवाला पिनाकीन इन्द्रवदन	01/07/2016
118	श्री विभव मणि त्रिपाठी	01/07/2016
119	श्री पवन कुमार तिरुपति	01/07/2016
120	श्री सौम्य सेन	01/07/2016
121	श्री पंकज शंकरराव दामके	01/07/2016
122	श्री अजय कुमार गांग्यान	01/07/2016
123	श्री बैजु एम बी	01/07/2016
124	श्री संजीव चौहान	01/07/2016
125	श्रीमती हेमांगी वि गायकवाड	01/07/2016

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी /7(4)/2017/भर्ती-IV/(एसओ/डी)/ईटीजी/5897—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के 'स्तर 10' भाग-क के निम्नलिखित तकनीकी अधिकारियों/इंजिनियर ग्रेड 'सी' को इसी अनुसंधान केंद्र में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स 'स्तर-11' भाग-क में तकनीकी अधिकारियों/इंजिनियर ग्रेड 'डी' के रूप में आगामी आदेशों कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री देवेश नारायण	01/07/2016
2	श्रीमती नैसी अजीत	01/07/2016
3	श्री अवधेश कुमार	01/07/2016
4	श्री संदीप गजानन थुल	01/07/2016
5	श्री टी राघुराम संदिप	01/07/2016
6	श्री मनोजकुमार मानिकचंद्र पाल	01/07/2016
7	श्री संतोष सिताराम भोईर	01/07/2016
8	श्री शशि भूषण के	01/07/2016
9	श्री शाह राजु वी	01/07/2016
10	श्री विजय मधुकर तेलमोरे	01/07/2016
11	श्री राज कमल गौतम	01/07/2016
12	श्री मनोज कुमार	01/07/2016
13	श्री अरविन्द कुमार सिंह	01/07/2016

(1)	(2)	(3)
14	श्री जलज वाष्प्य	01/07/2016
15	श्री रामप्रताप कुशवाहा	01/07/2016
16	श्री लिनिष के	01/07/2016
17	श्री महेश कुमार सोनी	01/07/2016
18	श्रीमती अस्मिता शर्मा	01/07/2016
19	श्री सन्तोष कुमार त्रिपाठी	01/07/2016
20	श्री तेजराम मीणा	01/07/2016
21	श्री अमित कतरियार	01/07/2016
22	श्री पी वी सुब्रमण्यम रेड्डी	01/07/2016

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 17 मई 2017

सं. पीडी/7(3)/2017/भर्ती-IV/(एसओ/ई)/ईटीजी/83128—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के श्री विनायक विलास निकम, तकनीकी अधिकारी ग्रेड 'डी' वेतन मैट्रिक्स के 'स्तर 11' भाग-क को तकनीकी अधिकारी ग्रेड 'ई' के पद पर वेतन मैट्रिक्स 'स्तर-12' भाग-क के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में 1 जुलाई, 2016 के पूर्वाहन से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु, नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 29 मई 2017

सं. पीडी/7(5)/2015/भर्ती-IV/(एसओ/डी)/6472—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के श्रीमती रेणुका हेमंतकुमार संखे, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजिनियर ग्रेड 'सी' वेतन मैट्रिक्स के 'स्तर 10' भाग-क को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजिनियर ग्रेड 'डी' के पद पर वेतन मैट्रिक्स 'स्तर-11' भाग-क के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में 30 जून, 2016 के पूर्वाहन से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(18)/2016/भर्ती-IV/(डीएस)/6476—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित विशिष्ट वैज्ञानिकों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के 'स्तर 15' भाग-क से वेतन मैट्रिक्स 'स्तर-16' भाग-क में उत्कृष्ट वैज्ञानिकों के रूप में इस अनुसंधान केंद्र में 18 अगस्त, 2016 के पूर्वाहन से, अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
1	श्री येलिया शिवराम मय्या
2	श्री देवाशीष दास
3	डॉ नब किशोर साहु
4	श्री ए रामा राव
5	डॉ अजीत कुमार मोंहाती
6	श्री कनकपुर वेंकटरामय्या रवि

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(19)/2016/भर्ती-IV/(ओएस)/6477—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के 'स्तर 14' भाग-क के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजिनियर ग्रेड 'एच' को इसी अनुसंधान केंद्र में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स 'स्तर-15' भाग-क में विशिष्ट वैज्ञानिकों के रूप में इस अनुसंधान केंद्र में 18 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
1	श्रीमती अनुराधा मैथ्या
2	श्री अजयानंदन सी
3	श्री हनगुड अनंतसुब्बाराव बालासुब्रमण्या
4	श्री प्रदीपकुमार विरेन्द्रकुमार भटनागर
5	श्री गोपाल जोशी
6	श्री मधुसूदनन कुलविल
7	डॉ देविदास बीरप्पा नाईक
8	श्री देवरायनदुर्गा अच्युतराव सुधीन्द्र राव
9	श्री वैद्य उदय वामनराव
10	श्री बेहेरे प्रविण गजानन
11	डॉ अनूप कुमार भट्टाचारजी
12	डॉ दीपक चन्द्र बिस्वास
13	डॉ एस कन्नन
14	डॉ श्रीनिवास कृष्णगोपाल
15	डॉ नरेश कुमार माहेश्वरी
16	डॉ बसंता कुमार नायक
17	डॉ संदीप कुमार नायक
18	डॉ रमेश चन्द राणौत
19	डॉ (श्रीमती) अर्चना शर्मा
20	डॉ वयलाम पुरत वेणुगोपालन

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

(परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय)

हैदराबाद-500016, दिनांक 31 मई 2017

सं. पखनि-16/4/2015-भर्ती/917—निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग श्रीमती श्रावणी वी. कदम, सहायक लेखाकार (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई को अस्थाई हैसियत में दिनांक 18.4.2017 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, जयपुर में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. जी. राघवन
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 30 मई 2017

No.LC/560(5)/504—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से गजट में पब्लिकेशन की तारीख से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

Sl No.	Company Name	CIN No.	
1	हितेक ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड	U51101UP2011PTC043263	G04729968
2	स्पेक्ट्रम इन्स्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U29253UP2009PTC036987	G04767976
3	धरमवीर फाइबर टू फैशन प्राइवेट लिमिटेड	U17299UP2008PTC035551	G05072665
4	इनफोबैज्ड कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2015PTC072296	G05378294
5	देसिया इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2015PTC068418	G05435037
6	विद्या इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U36912UP2012PTC053760	G05453584
7	डाक्टर पाडियान इन्स्टीट्यूट आफ टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड	U72900UP2001PLC026174	G05733621
8	कनिका नर्सरी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	U01403UP2011PTC047233	G05858113
9	पाथ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2013PTC059552	G05866702
10	सिगमा इन्फावर्ड प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC054802	G05918396
11	स्नेहा कान्ट्रक्ट्स एण्ड फैकेलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC045291	G05965330
12	राधिका वर्डकांड प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2015PTC070270	G06082689
13	राधिकाकृष्णा यूनिवर्सल इण्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2015PTC070249	G06082978
14	राजदरबार हेल्थकेयर एसेन्सियल प्राइवेट लिमिटेड	U85191UP2015PTC074111	G06083117
15	फयूचरग्रोन सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037534	G06120646
16	ग्लेरेस बायोटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U51101UP2014PTC066660	G06408769
17	केस्टार टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड	U12000UP2007PTC034292	G06432413
18	मिश्रा वितले एण्ड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2012PTC052127	G06466148
19	प्लाण्टयोरिडा साफ्टवेयर सेल्यूशन एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999UR2012PTC000159	G06513493
20	लाइवपीसी रिसक्यू प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC057937	G06528897
21	होपवेल प्रोजेक्ट्स एण्ड कान्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2009PTC038503	G06534200
22	एआरएस इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2015PTC072580	G06570675
23	यूनिक ग्लैजिंग टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड	U28910UP2011PTC046354	G06578413
24	सिद्धि इन्फ्राइस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2010PTC039978	G06592885
25	सिड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC052906	G06597348
26	आर पी बुबना टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	U18101UP1988PTC010277	G06649131
27	एसडीएसएन एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड	U80221UP2009PTC036816	G06664619
28	एसपीसी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2012PTC054057	G06704423
29	आईनेज फायर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC060099	G06707103
30	एड निवेश सलाह प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2009PTC038518	G06723936
31	एक्सपेरियो साफ्टवेयर टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC044898	G06763155
32	आईक्यू फाइनैशियल सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2007PTC033486	G06776009
33	ओमशिव कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2008PTC035514	G06794416

34	शरपी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC039848	G06796148
35	फैक्सशार्प कन्सल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2010PTC042690	G06846679
36	मयूर इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC046974	G06927610
37	जीआरके बूसी वीजन प्राइवेट लिमिटेड	U51909UP2003PTC028038	G06948863
38	ब्रेन जिम एबेकस मेमोरी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U80904UR2009PTC033038	G06963680
39	आधार रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC059256	G06985956
40	युवाजाब्स टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2011PTC045758	G07024987
41	एजुजायर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2012PTC051034	G07231509
42	एसआरएसएस कमोडिटीस एण्ड लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049870	G07305337
43	एक्रीपोस्ट इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC056650	G07323900
44	फैजान नेटदेव प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC055920	G07331978
45	रिवेल मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U51101UP2011PTC045353	G07342173
46	केबीनोस निरमन लिमिटेड	U45400UP2015PLC069261	G07402811
47	मेडगैलेक्सी क्लीनिकल सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2015PTC069952	G07447444
48	प्रगति वेलट्रेड लिमिटेड	U67190UP2014PLC066338	G07460553
49	स्टार 100 लैण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2015PTC068836	G07494107
50	वाधवा हास्पिटलिटीस प्राइवेट लिमिटेड	U55100UP2016PTC077296	G07523764
51	जस खेरा फुटवियर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2015PTC071549	G07576333
52	ब्लेण्ड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC055986	G07630106
53	पियाली इन्फ्राप्रमोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2013PTC060503	G07635402
54	पीपलट्रस्ट फिन्को प्राइवेट लिमिटेड	U65923UP2012PTC053137	G07769045
55	आरएमएस एलायस एण्ड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	U27310UP2012PTC049233	G07780992
56	हैपीलाइफ फार्मिंग एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U01403UP2012PTC052896	G07913247
57	जेएमडी प्लेटिंग सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74992UP2013PTC061329	G07923873
58	छाबरा शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2008PTC035846	G08040305
59	अपनी शापिंग एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2012PTC050368	G08141277
60	वैभव इन्फ्रावेन्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2010PTC041727	G08267361

पुनीत कुमार दुग्गल
कम्पनी रजिस्ट्रार
कानपुर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2017

सं. आर ओ सी/560(5)/एफ टी ई/2017/673—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों के नाम काट दिए गए हैं :—

सीरियल नंबर	कंपनी संख्या	कंपनी का नाम
1	U24129CT2012PTC000463	मेसर्स एसआरटी सेव नेचर प्राइवेट लिमिटेड
2	U27102CT2003PLC015938	मेसर्स दंतेश्वरी स्प्रांज एंड पावर लिमिटेड
3	U27107CT2008PTC020865	मेसर्स मोतीलाल केडिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड

4	U27100CT2008PTC020723	मेसर्स चंडोक स्टील एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
5	U52599CT2003PTC015753	मेसर्स आगाज मॉकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड
6	U63090CT2012PTC000403	मेसर्स एसबीटी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड
7	U72200CT2011PTC022639	मेसर्स शिवा सिसटेक प्राइवेट लिमिटेड
8	U15135CT2008PTC020644	मेसर्स आयुष एग्रीकेम प्राइवेट लिमिटेड
9	U27100CT2010PTC021778	मेसर्स कृष्णा ब्लैक एंड वाईट ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U27100CT2010PTC021777	मेसर्स कृष्णा हाट रोलड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U51109CT2009PTC021129	मेसर्स महेन्द्र इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
12	U51109CT2009PTC021154	मेसर्स कीरत ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U52100CT2010PTC022093	मेसर्स किंग रिसोर्सेस् प्राइवेट लिमिटेड
14	U74300CT1995PTC009491	मेसर्स श्री गिरिराज इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
15	U72200CT2011PTC022453	मेसर्स ट्रेड आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

आर. के. साहू
कम्पनी रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनी के विषय में

पुडुच्चेरी-605011, दिनांक 17 फरवरी 2017

सं. 3(161)/560(5)/2017—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है :-

क्र.सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2548	ज क एगो प्राइवेट लिमिटेड

एस.आर. राधिका
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पुडुच्चेरी-605011, दिनांक 31 मई 2017

सं. 3(161)/560(5)/2017—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2103	मीडिया सिक्स क्रिएटिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2	2102	अल्फा एजुकेशनल एंड कंसल्टिंग सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

एस. आर. राधिका
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110003, the 23rd March 2017

No. P.III-1/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 25/05/2016 for voluntary retirement from service, Shri V S Rawat, Assistant Commandant, (IRLA No. 7780) of 121 Bn, CRPF, relinquished the charge of his post on the afternoon of 30/09/2016. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 30/09/2016 (AN).

GURSHAKTI SINGH SODHI
DIG(Pers)

No. P.III-2/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 04/02/2016 for voluntary retirement from service, Shri Somi, Assistant Commandant (IRLA No. 9412) of 222 Bn of CRPF, relinquished the charge of his post on the afternoon of 30/09/2016. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 30/09/2016 (AN).

GURSHAKTI SINGH SODHI
DIG(Pers)

No. P.III-2/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 22/09/2016 for voluntary retirement from service, Smt. Bindu M.C, Assistant Commandant (IRLA No. 9926) of 88 Bn of CRPF, relinquished the charge of her post on the afternoon of 30/11/2016. Accordingly, she has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 30/11/2016 (AN).

GURSHAKTI SINGH SODHI
DIG(Pers)

No. P.III-2/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 21/04/2016 for voluntary retirement from service, Shri Kanchan Ray, Assistant Commandant (IRLA No. 7814) of GC, CRPF, Ranga Reddy, relinquished the charge of his post on the afternoon of 20/07/2016. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 20/07/2016 (AN).

GURSHAKTI SINGH SODHI
DIG(Pers)

The 28th April 2017

No. O.II-3703/2017-Pers.DA.I—The Govt. of India have appointed Shri Rajeev Rai Bhatnagar, IPS (UP : 83) as Director General of CRPF in the apex scale of Rs. 2,25,000/- level 17 of pay matrix with effect from the date of his taking over the charge of the post until his superannuation i.e. 31/12/2019 or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Director General, CRPF in the forenoon of 28/04/2017.

GURSHAKTI SINGH SODHI
DIG(Pers)

New Delhi-110003, the 26th May 2017

No. D.V.1/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated Nil for resignation from service, Shri Syed Nadeem Raza, Assistant Commandant (Trainee) (IRLA No. 10074) of 45th (A) DAGOs batch, relinquished the charge of his post on the afternoon of 27/08/2016. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 27/08/2016 (A.N.).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG(Pers)

No. D.V-1/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 16/08/2016 for resignation from service, Shri Varun Kumar, Assistant Commandant (IRLA No. 8147) of 91 Bn, CRPF, relinquished the charge of his post on the afternoon of 20/08/2016. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 20/08/2016 (A.N.).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG(Pers)

No. D.V-1/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 04/02/2016 for resignation from service, Shri Mahip Singh Yadav, Assistant Commandant (IRLA No. 9508) of 142 Bn, CRPF, relinquished the charge of his post on the afternoon of 06/08/2016. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 06/08/2016 (A.N.).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG(Pers)

No. D.V-1/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 08/10/2016 for resignation from service, Shri Ranjeet Kumar, Assistant Commandant (Trainee) (IRLA - 10652) of 48th batch DAGOs of CRPF, relinquished the charge of his post on the afternoon of 11/01/2017. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 11/01/2017 (A.N.).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG(Pers)

No. D.V-1/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 09/06/2016 for resignation from service, Shri Kaustubh, Assistant Commandant (IRLA - 10219) of 179 Bn of CRPF, relinquished the charge of his post on the afternoon of 20/10/2016. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 20/10/2016 (A.N.).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG(Pers)

No. D.V-1/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 15/08/2016 for resignation from service, Shri Ashish Thapliyal, Assistant Commandant (IRLA - 10018) of 179 Bn of CRPF, relinquished the charge of his post on the afternoon of 03/11/2016. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 03/11/2016 (A.N.).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG(Pers)

No. D.V-1/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 17/08/2016 for resignation from service, Shri Vishnu Suresh C, Assistant Commandant (IRLA No. - 10306) of 207 Bn of CRPF, relinquished the charge of his post on the afternoon of 07/11/2016. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 07/11/2016 (A.N.).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG(Pers)

No. D.V-1/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 08/10/2016 for resignation from service, Shri Anurag Singh, Assistant Commandant Trainee (IRLA - 10704) of 47th batch DAGO of CRPF, relinquished the charge of his post on the afternoon of 03/03/2017. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 03/03/2017 (A.N.).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG(Pers)

No. D.V-1/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of request for withdrawal of resignation from service Shri Mahendra Kumar Mishra, Assistant Commandant (IRLA - 8103) has reported at 199 Bn, CRPF on 10/06/2016 (FN) and

taken over the charge of his post on the same date. Accordingly, he has been taken on the strength of this Force from the same date i.e. wef 10/06/2016 (FN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG(Pers)

No. P.III.2/2017-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 24/02/2016 for voluntary retirement from service, Shri Manjit Pathania, Assistant Commandant (IRLA No. 6406) of 161 Bn of CRPF, relinquished the Charge of his post on the afternoon of 20/09/2016. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from, the same date i.e. 20/09/2016 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG(Pers)

The 31st May 2017

No. O.II.4021/15-Pers-DA-6—Consequent on acceptance of resignation by the competent authority, Dr. Vishvas Sharma, Medical Officer (Asstt.Comdt.), IRLA No.10710 of GC, CRPF, Pinjore, has relinquished the charge of his post in the afternoon of 24/05/2017. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force w.e.f. 24/05/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG(Pers)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110 003, the 19th May 2017

No. E-16013/DIG-Dep/NV/2011/Pers-II/ 393—The President is pleased to appoint Shri N.Venugopal, IPS (HP: 95) as Inspector General, Central Industrial Security Force, in the level 14 in the Pay Matrix on promotion. The officer has assumed the charge of Inspector General, North Sector, HQrs., Saket, New Delhi with effect from the afternoon of 16.05.2017.

Sd./-ILLEGIBLE
Director General

New Delhi-110003, the 19th May 2017

No. E-16013/DIG-DEP-SG/ PERS.II/ 2010/390—On pre-mature repatriation to parent cadre, Smt. Shikha Goel, IPS (TG:1994) has relinquished the charge of the post of Inspector General, North Sector HQrs., Saket, New Delhi in the afternoon of 16th May, 2017, in pursuance of MHA O.M. No.I-21016/20/2011-IPS.III dated 24th April, 2017.

V. K. CHAURASIA
Asstt. Inspector General (Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE)

New Delhi-110002, the 4th May 2017

No. Admn.I/O.O No. 48—Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi is pleased to appoint following officials of this office to officiate as Assistant Audit Officer in the Pay Level-8 (47,600—1,51,100/-) in the pay matrix corresponding to the Sixth Pay Commission's Pay Band-2 (₹ 9,300—34,800/-) carrying Grade Pay of ₹ 4,800/- with effect from the dates as mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name	Emp. Code	Date of Promotion
1.	Shri Pradeep Kumar	DLNDV4052051	17.02.2017
2.	Shri Pradeep Kumar	DLNDV4051906	22.02.2017
3.	Shri Durgesh Kumar Chaturvedi	DLNDV4051919	06.03.2017

Sd/-ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 1st June 2017

No. 5/1/2017-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base:2001=100 increased by 2 points and stood at 277 (two hundred seventy seven) for the month of April, 2017.

SHYAM SINGH NEGI
Deputy Director General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 16 May 2017

No. PD/7(4)/2017-R-IV/SO(D)/ETG/5892—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'C' in 'Level 10', Part-A of the Pay Matrix of 7th CPC of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' in 'Level 11', Part-A of the Pay Matrix of 7th CPC, in the same Research Centre with effect from the forenoon of dates indicated under column 3 against each, in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of Promotion
(1)	(2)	(3)
1	SHRI MANISH PATHAK	01/07/2016
2	SHRI RAM PRAKASH	01/07/2016
3	SHRI MANGLA NAND	01/07/2016
4	SHRI PARESH KOTHARI	01/07/2016
5	SHRI MAHESH VISWAMBHARAN	01/07/2016
6	SHRI VINAYAK RAMESH SONAR	01/07/2016
7	KUM. ELINA MISHRA	01/07/2016
8	SHRI BIKRAM KUMAR	01/07/2016
9	SHRI SAYANDEEP KUNDU	01/07/2016
10	SHRI UPENDRA SINGH	01/07/2016
11	SHRI ANKUR KATIYAR	01/07/2016
12	SHRI MANISH KUMAR MUNDHRA	01/07/2016
13	SHRI ANKUR CHOWDHURY	01/07/2016
14	SHRI HITESH CHOUDHARY	01/07/2016
15	SHRI SARVER AHMED RATHER	01/07/2016
16	KUM. POOJA GUPTA	01/07/2016
17	SMT. ARCHANA SEKHAR ARUN	01/07/2016
18	SHRI VENKATESWARA RAO GUMMA	01/07/2016
19	SHRI KANAKAM VENKANNA BABU	01/07/2016
20	SHRI ABHILASH CHAKRAVARTY	01/07/2016
21	SHRI ANIL KUMAR VERMA	01/07/2016
22	SHRI AJITH SWAMINATHAN	01/07/2016
23	SMT. BIMMI BHARADVAJ	01/07/2016
24	SHRI RAHUL JAIN	01/07/2016
25	KUM. ANUSHRI JAIN	01/07/2016
26	SHRI MANOJ DATTATRAY MHETAR	01/07/2016

Sl. No.	Name of the officer	Date of Promotion
(1)	(2)	(3)
27	SHRI LALIT PATODA	01/07/2016
28	SHRI SUMANTA MUKHERJEE	01/07/2016
29	SHRI VIJAY KARKI	01/07/2016
30	SHRI AJITHLAL R T	01/07/2016
31	SHRI SRINATH RAGHAVAN	01/07/2016
32	SHRI PRASHANT KUMAR MISHRA	01/07/2016
33	KUM. SARITA	01/07/2016
34	SHRI DUDAM SRINIVAS	07/07/2016
35	SHRI AYAN KUMAR PAL	01/07/2016
36	SHRI RAHUL SINGH	01/07/2016
37	SMT. JAYASUDHA PRABHU	01/07/2016
38	SHRI ALOK RAMNIVAS TRIPATHI	01/07/2016
39	SMT. KOUSIKI GHOSH JANA	01/07/2016
40	KUM. PALLAVI SINGHAL	01/07/2016
41	SMT. ANITHA MANU	01/07/2016
42	SHRI MENTES JOSE	01/07/2016
43	SHRI PAPU SAMANTA	01/07/2016
44	KUM. JYOTSNA BHATT	01/07/2016
45	SHRI GOPESH SRIVASTAVA	01/07/2016
46	SHRI GEORGE ANTONY	01/07/2016
47	SMT. SUBBIAH PREMALATHA	01/07/2016
48	SHRI PARICHAY CHAKRABORTY	01/07/2016
49	SHRI T RAYAPPAN	01/07/2016
50	SHRI PRADEEP LALMOHAN SINGH	01/07/2016
51	SHRI SANGRAM SINGH BHATI	01/07/2016
52	SHRI BOGADHI RAMESH	01/07/2016
53	SHRI ANSHUMAN SINGHARROY	01/07/2016
54	SHRI RABINDRA NATH JUINE	01/07/2016
55	SHRI KUMAR SAJAL	01/07/2016
56	SHRI VARA PRASAD BATTULA	01/07/2016
57	SHRI DEWANAND SHALIGRAM SINKAR	01/07/2016
58	DR. SMT. ARUNA AMIT KHATRI	01/07/2016
59	SHRI CHANDRAJEET SINGH CHAUHAN	01/07/2016
60	SHRI PRATHAMESH VIJAY THAKAR	01/07/2016
61	SHRI SAYAN GUHA THAKURTA	01/07/2016
62	SMT. GUMPENI RAMADEVI	01/07/2016
63	SHRI PANDUGULA THIRMALESHWAR RAO	04/07/2016

Sl. No.	Name of the officer	Date of Promotion
(1)	(2)	(3)
64	SHRI AVINASH GOPALAN	01/07/2016
65	SHRI NOUDURU SAI KARTHIK	01/07/2016
66	SHRI PRAFFUL KUMAR SINHA	01/07/2016
67	SHRI SATISH CHANDRA MISHRA	01/07/2016
68	SHRI GAURAV SINGH	01/07/2016
69	SMT. RASHMI RAI	01/07/2016
70	SHRI KAWSAR ALI	01/07/2016
71	SHRI GAUTAM VISHWAKARMA	01/07/2016
72	SHRI ABHIMANYU SARKAR	01/07/2016
73	SHRI NAND KISHOR MISHRA	01/07/2016
74	SHRI SANDEEP JOSHI	01/07/2016
75	SHRI MOHIT KUMAR SHARMA	01/07/2016
76	SHRI BRIJESH NARAIN MISHRA	01/07/2016
77	SHRI ASHWINI KUMAR	01/07/2016
78	SMT. JYOTHI SHARMA	01/07/2016
79	SHRI SUKHDEEP SINGH	01/07/2016
80	SHRI PRITHWISH SINHARROY	01/07/2016
81	SHRI RAKESH KUMAR PAL	01/07/2016
82	SHRI ASHUTOSH SRIVASTAVA	01/07/2016
83	SHRI DEBOJYOTI PAL	01/07/2016
84	KUM. KAVITHA PREMKUMAR	01/07/2016
85	SHRI RAHUL ARYA	01/07/2016
86	SHRI GANESH LAL KUMAWAT	01/07/2016
87	SHRI KRUSHNA KESHAB PANDA	01/07/2016
88	SHRI RAMESH DINKAR RAO	01/07/2016
89	SHRI PRASHANT KUMAR SINGH	01/07/2016
90	SMT. RAJASHREE DIXIT	04/07/2017
91	SHRI ALOK KUMAR PASA	01/07/2016
92	SHRI RAMLAKHAN	01/07/2016
93	SHRI PATEL MANTHAN	01/07/2016
94	SHRI SHATADRU MOULIK	01/07/2016
95	SHRI MANI KUMAR	01/07/2016
96	SHRI ANKUSH ROY	01/07/2016
97	SHRI PARASHAR HEMANT	01/07/2016
98	SMT. REENA SHARMA	01/07/2016
99	SMT. RAMA PRAJITH	01/07/2016
100	SHRI AMITABHA NANDI	01/07/2016

Sl. No.	Name of the officer	Date of Promotion
(1)	(2)	(3)
101	SHRI ABHISHEK DAS	01/07/2016
102	SHRI R KRISHNA KUMAR	01/07/2016
103	SHRI GOVIND S RAJAN	01/07/2016
104	SHRI GOPAL MAPDAR	01/07/2016
105	SHRI GAURAV VERMA	01/07/2016
106	SHRI PRAVEEN KUMAR	01/07/2016
107	SHRI NAGENDER THODETTI	01/07/2016
108	SHRI KESHAV MOHTA	01/07/2016
109	SHRI SHUBHAM MISHRA	01/07/2016
110	SHRI ARUP SINGHA ROY	01/07/2016
111	SHRI MEGHNATH SEN	01/07/2016
112	SHRI ATANU JHA	01/07/2016
113	SHRI SHASHI RANJAN KUMAR	05/07/2016
114	SHRI YOGENDRA SINGH	01/07/2016
115	SHRI BABU RAMCHANDRA GONDE	01/07/2016
116	SHRI BALWANT SINGH	01/07/2016
117	SHRI KOTHWALA PINAKIN INDRAVADAN	01/07/2016
118	SHRI VIBHAV MANI TRIPATHI	01/07/2016
119	SHRI PAVAN KUMAR TIRUPATI	01/07/2016
120	SHRI SOUMYA SEN	01/07/2016
121	SHRI PANKAJ SHANKARRAO DAMKE	01/07/2016
122	SHRI AJAY KUMAR GANGYAN	01/07/2016
123	SHRI BAIJU M B	01/07/2016
124	SHRI SANJEEV CHAUHAN	01/07/2016
125	SMT. HEMANGI V GAIKWAD	01/07/2016

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(4)/2017-R-IV/SO(D)/ETG/5897—The President is pleased to appoint the undermentioned Technical Officers Grade 'C' in 'Level 10', Part-A of the Pay Matrix of 7th CPC of the Bhabha Atomic Research Centre as Technical Officer Grade 'D' in 'Level 11', Part-A of the Pay Matrix of 7th CPC, in the same Research Centre with effect from the forenoon of dates indicated under column 3 against each, in an officiating capacity until further order :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of Promotion
(1)	(2)	(3)
1	SHRI DEVESH NARAYAN	01/07/2016
2	SMT NICY AJITH	01/07/2016
3	SHRI AVADHESH KUMAR	01/07/2016
4	SHRI SANDEEP GAJANAN THUL	01/07/2016
5	SHRI T. RAGHURAM SANDEEP	01/07/2016

Sl. No.	Name of the officer	Date of Promotion
(1)	(2)	(3)
6	SHRI MANOJKUMAR MANIKCHANDRA PAL	01/07/2016
7	SHRI SANTOSH SITARAM BHOIR	01/07/2016
8	SHRI SASI BHUSHAN K.	01/07/2016
9	SHRI SHAH RAJU V.	01/07/2016
10	SHRI VIJAY MADHUKAR TELMORE	01/07/2016
11	SHRI RAJ KAMAL GAUTAM	01/07/2016
12	SHRI MANOJ KUMAR	01/07/2016
13	SHRI ARBIND KUMAR SINGH	01/07/2016
14	SHRI JALAJ VARSHNEY	01/07/2016
15	SHRI RAM PRATAP KUSHWAHA	01/07/2016
16	SHRI LINISH K	01/07/2016
17	SHRI MAHESH KUMAR SONI	01/07/2016
18	SMT ASMITA SHARMA	01/07/2016
19	SHRI SANTOSH KUMAR TRIPATHI	01/07/2016
20	SHRI TEJ RAM MEENA	01/07/2016
21	SHRI AMEET KATRIYAR	01/07/2016
22	SHRI P V SUBRAMANYAM REDDY	01/07/2016

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

The 17th May 2017

No. PD/7(3)/2017-R-IV/SO(E)/ETG/83128—The President is pleased to appoint Shri Vinayak Vilas Nikam, Technical Officer 'D' in 'Level 11', Part-A of the Pay Matrix of 7th CPC of the Bhabha Atomic Research Centre as Technical Officer 'E' in 'Level 12', Part-A of the Pay Matrix of 7th CPC, in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2016, in an officiating capacity until further orders.

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

The 29th May 2017

No. PD/7(5)/2015-R-IV/SO(D)/6472—The President is pleased to appoint Smt. Renuka Hemantkumar Sankhe, Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in 'Level 10', Part-A of the Pay Matrix of 7th CPC of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' in 'Level 11', Part-A of the Pay Matrix of 7th CPC in the same Research Centre with effect from 30th June, 2016, in an officiating capacity until further orders.

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(18)/2016-R-IV/(DS)/6476—The President is pleased to appoint the undermentioned Outstanding Scientists in 'Level 15', Part-A of the Pay Matrix of 7th CPC of the Bhabha Atomic Research Centre as Distinguished Scientists in 'Level 16', Part-A of the Pay Matrix of 7th CPC in the same Research Centre with effect from the forenoon of August 18, 2016 in an officiating capacity, until further orders :—

SR. NO.	NAME OF THE OFFICER
(1)	(2)
1.	SHRI YELIA SHIVARAMA MAYYA
2.	SHRI DEBASHIS DAS

3.	DR. NABA KISHORE SAHOO
4.	SHRI A RAMA RAO
5.	DR. AJIT KUMAR MOHANTY
6.	SHRI KANAKAPURA VENKATARAMAIAH RAVI

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(19)/2016-R-IV/(OS)/6477—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'H' in 'Level 14', Part-A of the Pay Matrix of 7th CPC of the Bhabha Atomic Research Centre as outstanding Scientists in 'Level 15', Part-A of the Pay Matrix of 7th CPC in the same Research Centre with effect from the forenoon of August 18, 2016 in an officiating capacity, until further orders :—

SR. NO.	NAME OF THE OFFICER
1.	SMT. ANURADHA MAYYA
2.	SHRI AJAYANANDAN CHELLAPPAN
3.	SHRI HANGUD ANATHASUBBARAO BALASUBRAMANYA
4.	SHRI PRADEEPKUMAR VIRENDRAKUMAR BHATNAGAR
5.	SHRI GOPAL JOSHI
6.	SHRI MADHUSOODANAN KULAVIL
7.	DR. DEVIDAS BEERAPPA NAIK
8.	SHRI DEVARAYANADURGA ACHYUTHARAO SUDHEENADRA RAO
9.	SHRI VAIDYDA UDAY WAMANRAO
10.	SHRI BEHERE PRAVEEN GAJANAN
11.	DR. ANUP KUMAR BHATTACHARJEE
12.	DR. DIPAK CHANDRA BIWAS
13.	DR. S KANNAN
14.	DR. SRINIVAS KRISHNAGOPAL
15.	DR. NARESH KUMAR MAHESHWARI
16.	DR. BASANTA KUMAR NAYAK
17.	DR. SANDIP KUMAR NAYAK
18.	DR. RAMESH CHAND RANNOT
19.	DR. (SMT.) ARCHANA SHARMA
20.	DR. VAYALAM PURATH VENUGOPALAN

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH)

Hyderabad-500 016, the 31st May 2017

No. AMD-16/4/2015-Rectt/917—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research Department of Atomic Energy, hereby appoints Smt. Shravani V. Kadam, Assistant Accountant [Level 7 in the Pay Matrix] BARC, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer [Level 8 in the Pay Matrix] in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Jaipur with effect from the forenoon of 18.04.2017 until further orders.

R.G. RAGHAVAN
Chief Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of Companies Act, 1956 and the following Companies

Kanpur-208001, the 30th May 2017

No. LC/560(3)/504—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved :—

Sl. No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	HITECH TRADEMART PRIVATE LIMITED	U51101UP2011PTC043263	G04729968
2	SPECTRUM INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED	U29253UP2009PTC036987	G04767976
3	DHARAMVIR FIBRE TO FASHION PRIVATE LIMITED	U17299UP2008PTC035551	G05072665
4	INFOBAZED CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74120UP2015PTC072296	G05378294
5	DESIYA INFRABUILD PRIVATE LIMITED	U70102UP2015PTC068418	G05435037
6	VIDYAA IMPEX PRIVATE LIMITED	U36912UP2012PTC053760	G05453584
7	DR. PANDIAN INSTITUTE OF TELECOMMUNICATIONS LIMITED	U72900UP2001PLC026174	G05733621
8	KANIKA NURSERY FARMS PRIVATE LIMITED	U01403UP2011PTC047233	G05858113
9	PATH PROJECTS PRIVATE LIMITED	U45400UP2013PTC059552	G05866702
10	SIGMA INFRAWORLD PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC054802	G05918396
11	SNEHA CONTRACTORS & FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC045291	G05965330
12	RADHIKA WORLDCARD PRIVATE LIMITED	U74120UP2015PTC070270	G06082689
13	RADHIKAKRISHNA UNIVERSAL ENTERPRISE PRIVATE LIMITED	U52100UP2015PTC070249	G06082978
14	RAJDARBAR HEALTH ESSENTIAL PRIVATE LIMITED	U85191UP2015PTC074111	G06083117
15	FUTUREGROWN SALES & MARKETING PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC037534	G06120646
16	GLARES BIOTECH INDIA PRIVATE LIMITED	U51101UP2014PTC066660	G06408769
17	KSTAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U12000UP2007PTC034292	G06432413
18	MISHRA VITTE AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED	U15122UP2012PTC052127	G06466148
19	PLANTYOURIDEA SOFTWARE SOLUTIONS AND SERVICES PRIVATE LIMITE	U74999UR2012PTC000159	G06513493
20	LIVEPC RESCUE PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC057937	G06528897
21	HOPEWELL PROJECTS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45400UP2009PTC038503	G06534200
22	ARS INFRADEVELOPER PRIVATE LIMITED	U45400UP2015PTC072580	G06570675
23	UNIQUE GLAZING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U28910UP2011PTC046354	G06578413
24	SIDDHI INFRAESTATE PRIVATE LIMITED	U45400UP2010PTC039978	G06592885
25	SYD INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC052906	G06597348
26	R P BUBNA TEXTILES PRIVATE LIMITED	U18101UP1988PTC010277	G06649131
27	SDSN EDUCATIONAL PRIVATE LIMITED	U80221UP2009PTC036816	G06664619
28	SPC MILKS PRIVATE LIMITED	U15122UP2012PTC054057	G06704423
29	INEZ FIRE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC060099	G06707103
30	AD- NIVESH SALAAH PRIVATE LIMITED	U67190UP2009PTC038518	G06723936
31	AXPERIO SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC044898	G06763155
32	I.Q.FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U67190UP2007PTC033486	G06776009

Sl. No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
33	OMSHIV CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74999UP2008PTC035514	G06794416
34	SHARPEYE ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC039848	G06796148
35	FLEXSHARP CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U93030UP2010PTC042690	G06846679
36	MAYUR INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC046974	G06927610
37	G. R. K. BUSI VISION PRIVATE LIMITED	U51909UP2003PTC028038	G06948863
38	BRAIN GYM ABACUS MEMORY DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U80904UR2009PTC033038	G06963680
39	AADHAR REALTECH PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC059256	G06985956
40	YUVAJOBS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900UP2011PTC045758	G07024987
41	EDUZIRE EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80904UP2012PTC051034	G07231509
42	S R S S COMMODITIES & LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049870	G07305337
43	ACREPOST INFRA PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC056650	G07323900
44	FAIZAN NETDEV PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC055920	G07331978
45	REWELL MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U51101UP2011PTC045353	G07342173
46	KBNOVS NIRMAN LIMITED	U45400UP2015PLC069261	G07402811
47	MEDGALAXY CLINICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2015PTC069952	G07447444
48	PRAGATI WELLTRADE LIMITED	U67190UP2014PLC066338	G07460553
49	STAR100 LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2015PTC068836	G07494107
50	WADHWA HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED	U55100UP2016PTC077296	G07523764
51	JAS KHERA FOOTWEAR EXPORTS PRIVATE LIMITED	U74900UP2015PTC071549	G07576333
52	BLEND PARK PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC055986	G07630106
53	PIYALI INFRAPROMOTERS PRIVATE LIMITED	U70100UP2013PTC060503	G07635402
54	PEOPLETRUST FINCO PRIVATE LIMITED	U65923UP2012PTC053137	G07769045
55	RMS ALLOYS AND STEELS PRIVATE LIMITED	U27310UP2012PTC049233	G07780992
56	HAPPYLIFE FARMING AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U01403UP2012PTC052896	G07913247
57	JMD PLATING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74992UP2013PTC061329	G07923873
58	CHHABRA SHARES PRIVATE LIMITED	U67120UP2008PTC035846	G08040305
59	APNI SHOPPING & MARKETING PRIVATE LIMITED	U52100UP2012PTC050368	G08141277
60	VAIBHAV INFRAVENTURE PRIVATE LIMITED	U45400UP2010PTC041727	G08267361

PUNEET KUMAR DUGGAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bilaspur, the 30th May 2017

No. ROC/560(5) FTE/2017/673—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

S.No.	CIN	Name of the Company
1	U24129CT2012PTC000463	M/s SRT SAVE NATURE PRIVATE LIMITED
2	U27102CT2003PLC015938	M/s DANTESHWARI SPONGE AND POWER LIMITED
3	U27107CT2008PTC020865	M/s MOTILAL KEDIA STEEL PRIVATE LIMITED
4	U27100CT2008PTC020723	M/s CHANDHOK STEEL AND INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Name of the Company
5	U52599CT2003PTC015753	M/s AGAZ MARKETING PRIVATE LIMITED
6	U63090CT2012PTC000403	M/s SBT HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
7	U72200CT2011PTC022639	M/s SHIVA SYSTECH PRIVATE LIMITED
8	U15135CT2008PTC020644	M/s AAYUSH AGRICHEM PRIVATE LIMITED
9	U27100CT2010PTC021778	M/s KRISHNA BLACK AND WHITE TUBES PRIVATE LIMITED
10	U27100CT2010PTC021777	M/s KRISHNA HOT ROLLED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
11	U51109CT2009PTC021129	M/s MAHENDRA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
12	U51109CT2009PTC021154	M/s KEERAT TRADERS PRIVATE LIMITED
13	U52100CT2010PTC022093	M/s KING RESOURCES PRIVATE LIMITED
14	U74300CT1995PTC009491	M/s SHRI GIRIRAJ ISPAT PVT LTD
15	U72200CT2011PTC022453	M/s TREND IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

R. K. SAHU
Registrar of Companies
Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Puducherry-605011, the 17th February 2017

No. 3(161) / 2017—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Company has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved:—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1.	U74900PY2011PTC002548	J K AGRO PRIVATE LIMITED

S. R. RADHIKA
Registrar of Companies
Puducherry

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Puducherry-605011, the 31st May 2017

No. 3(161) / 2017—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1.	U72900PY2007PTC002103	MEDIASIX CREATIVE SERVICES PRIVATE LIMITED
2.	U72900PY2007PTC002102	ALPHA EDUCATIONAL & CONSULTING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED

S. R. RADHIKA
Registrar of Companies
Puducherry

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in